

ब्रांडेड कम्पनी के 25 लाख रूपये के नकली कॉस्मेटिक बरामद, पुलिस ने तीन को किया गिरफ्तार

• Reported By HIMANSHU • Edited By Rajgeer Kumar Singh • 24-Feb-2022 07:43 PM

नकली कॉस्मेटिक बरामद



MOTIHARI : ब्रांडेड कम्पनियों के नाम पर नकली समानों को बेचने का मामला पूर्वी चम्पारण में उजागर हुआ है। जिले के चकिया बाजार में कम्पनी के अधिकारियों ने छापामारी कर करीब 25 लाख रूपये के कॉस्मेटिक सामान बरामद किये गये हैं। साथ ही इस कारोबार में लगे तीन लोगों को गिरफ्तार कर जेल भेजा गया है। मामला हिन्दुस्तान लीवर कम्पनी के नामी ब्रांड लक्मे से जुड़ा है। कम्पनी की दिल्ली से आयी टीम ने चकिया थाना पुलिस के सहयोग से चकिया बाजार के कई दुकानों में छापामारी किया है, जहां से लाखों रूपये मूल्य के नकली उत्पाद बरामद किये गये हैं। इनमें लैक्मे ब्रांड की लिपिस्टिक, आई-लाइनर, पाउडर, फाउंडेशन, आई टच और फेयर एंड लवली क्रिम आदि शामिल है। इस मामले को लेकर कम्पनी के फिल्ड एक्जीक्यूटिव सुभाष शर्मा ने बताया कि पिछले काफी दिनों से ग्राहकों की शिकायतें प्राप्त हो रही थी। सूचना के आधार पर चकिया नगर के गौशाला रोड के संजीत चुड़ी भंडार, राणीसती मंदिर रोड के मैनुद्दीन चुड़ी सेंटर और मोतिहारी रोड के अवधेश कुमार के दुकानों पर छापामारी की गई। इस छापामारी में तीन लोगों को गिरफ्तार भी किया गया है। जिसमें संजीत चुड़ी भंडार का कर्मि संतोष कुमार और मैनुद्दीन चुड़ी सेंटर का कर्मि मो. एखलाक और दुकानदार अवधेश कुमार को गिरफ्तार किया गया है। इस संबंध में कम्पनी के अधिकारियों ने चकिया थाना में प्राथमिकी दर्ज कराया है। गिरफ्तार तीनों कारोबारियों को न्यायिक हिरासत में जेल भेजा गया है। बरामद सामान की जब्ती सूची तैयार कर आवश्यक कानूनी कार्रवाई की जा रही है।

Source: <https://news4nation.com/news/branded-company-s-fake-cosmetic-worth-rs-25-lakh-recovered-police-arrested-three-914079>